

शासकीय चन्द्रूलाल चन्द्राकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाटन, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

अर्द्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021–22

कक्षा का नाम – बी.कॉम. भाग तीन

विषय – ग्रुप –2 (वाणिज्य)

प्रश्न पत्र – प्रथम (Indirect Tax with GST)

नोट – सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

इकाई – 1

प्रश्न 1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क की भूमिका पर एक निबंध लिखिए।

अथवा

एक भारतीय ने लंदन से एक मशीन आयात की।  
निम्न सूचनाओं के आधार पर सीमा शुल्क के लिए मशीन का शुल्क योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए –

	\$
(1) मशीन का मूल्य	10,000
(2) पैकिंग व्यय	500
(3) हवाई जहाज का परिवहन व्यय	3,000
(4) निर्यातक के दलाल को सौदा करवाने का कमीशन	100
(5) निर्यातक के कर्मचारी को भारत आकार मशीन को लगाने का पारिश्रमिक	3,000
(6) बीमा प्रीमियम	5,000
(7) भारतीय हवाई अड्डे से फ़ैक्टरी तक माल लाने का व्यय एवं बीमा प्रीमियम	रु. 10,000
(8) विनिमय दर –	
(अ) रिजर्व बैंक द्वारा – 91.5 प्रति डालर	
(ब) बोर्ड द्वारा – 90 प्रति डालर।	

इकाई – 2

प्रश्न 2. छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम का संक्षिप्त इतिहास एवं प्रमुख उद्देश्यों को बताइये।  
तथा इसके उल्लंघन पर अर्थदण्ड तथा सजाओं का उल्लेख कीजिए।

अथवा

बिलासपुर भंडारगृह से अगस्त 2021 माह में निम्नलिखित मदें निर्गमित की गयी –

(1) औषधियाँ तैयार करने हेतु भांग	100 कि.ग्रा.
(2) मसालदार देशी शराब	4,000 पूफलीटर
(3) मिलिट्री संगठन से अधिकृत कैण्टीन को ब्राण्डी	5,000 पूफलीटर
(4) लाइसेंसधारी व्यापारी को रम (मूल्य 1800 प्रति फूकलीटर)	3,000 पूफलीटर
(5) सीमा सुरक्षा बल के अधिकृत कैण्टीन को रम	2,000 पूफलीटर
(6) भाँग (घोटा) ठेकेदारों को भाँग	200 कि. ग्रा.
(7) लाइसेंसधारी व्यापारियों को ब्राण्डी (मूल्य 1950रु प्रति पूफलीटर)	7,000 पूफलीटर

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उपर्युक्त मदों पर संग्रहीत कुल आबकारी शुल्क की गणना कीजिए।

इकाई – 3

प्रश्न 3. माल एवं सेवा का अर्थ बताइयें। माल एवं सेवाकर के लाभ व दोषों को समझाइये।

अथवा

माल एवं सेवा कर परिषद की भूमिका एवं कार्य को समझाइयें। साथ ही माल एवं सेवा कर नेटवर्क के कार्य एवं सेवाओं को विस्तार से समझाइये।

इकाई – 4

प्रश्न 4. पूर्ति के अर्थ को समझाइये। पूर्ति के मूल तत्व कौन से हैं? पूर्ति के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिये।

अथवा

मेसर्स अंकुर इंटरप्राइजेस, इंदौर के विक्रय का विवरण निम्नलिखित है –

(1) मोटर साइकिल्स एवं स्कूटर्स (जो चेन्नई से खरीदें गये हैं, कर की दर 28% कर सहित मूल्य)	11,60,000
(2) दवाईयां (कंपनी के डिपो से खरीदी गयी, कर की दर 12%)	25,44,000
(3) स्वयं द्वारा निर्मित माल का विक्रय (कर की दर 5%)	55,00,000
(4) लोहा व इस्पात (कर चुका) म. प्र. की रोलिंग मिला से क्रय (कर की दर) 8%	5,15,000
(5) साइकिलें (हरियाणा से खरीदी, कर की दर 12%)	4,32,000
(6) टाईल्स (जो अंतर्राज्यीय व्यापार में बेची गयी है) कर की दर 18%	3,60,000
(7) शक्कर (म. प्र. के पंजीकृत व्यापारी से क्रय, कर की दर 5%)	2,12,000
(8) खेल का सामान (पंजाब के पंजीकृत व्यापार से खरीदा कर की दर 12%)	2,10,000

व्यवसायी के जी.एस.टी. दायित्व की गणना कीजिए।

000000

शासकीय चन्द्रूलाल चन्द्राकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाटन, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

अर्द्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021–22

कक्षा का नाम – बी.कॉम. भाग तीन

विषय – ग्रुप –2 (वाणिज्य)

प्रश्न पत्र – द्वितीय (Management Accounting)

नोट – सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

इकाई – 1

प्रश्न 1. निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2021 को एक संक्षिप्त आर्थिक चिट्ठा बनाइये।

स्कंध आवर्त	6
स्थिर संपत्ति आवर्त अनुपात	4
पूँजी आवर्त अनुपात	2
सकल लाभ अनुपात	20%
ऋण वसूली अवधि	2 माह
लेनदार भुगतान अवधि	13 दिवस
सकल लाभ रु. 60,000 का था।	
अंतिम स्कंध आरंभिक स्कंध से रु. 5,000 अधिक था।	
संचय एवं अधिव्य की राशि रु. 20,000 थी।	

अथवा

प्रबंधकीय लेखांकन क्या है ? वर्तमान समय में इसके महत्व एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए।

इकाई – 2

प्रश्न 2. लेखांकन मानक – 3 (AS-3) के संदर्भ में रोकड़ प्रवाह विवरण में तीन प्रकार की क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना को विस्तार से समझाइये।

अथवा

ए.बी.सी. के निम्न आकड़ों से फण्ड बहाव विवरण तैयार कीजिए –

	31-3-2021	31-3-2020
रोकड़	8344	4652
व्यापारिक प्राप्त	12650	18170
अशोध्य ऋण के लिए छूट	1750	1860
व्यापारिक स्कंध	23875	24640
फर्नीचर	17500	12000
ट्रक	19000	11500
ट्रक पर संचित ह्रास	4500	3000
व्यापारिक देय	22122	19280
पूँजी	50000	50000
प्रतिधारित लाभ	+ 2997	-3178

2020–21 में 5,000 का लाभांश दिया गया। फर्नीचर पर ह्रास 2020–21 में 1200 था। इसे सम्पत्ति खाते में क्रेडिट किया गया था।

### इकाई – 3

प्रश्न 3. निम्न समक एक लघु निर्माणी कंपनी से संबंधित है –

स्थायी लागत                      रू. 160000  
परिवर्तनशील लागत              60% विक्रय का  
गणना कीजिए –

- (1) लाभ मात्रा अनुपात      (2) समविच्छेद बिन्दु      (3) 20,000 लाभ अर्जन हेतु बिक्री।  
(4) 4,40,000 की अनुमानित बिक्री पर लाभ  
(5) 8,00,000 की बिक्री पर सुरक्षा की सीमा।

अथवा

सीमांत लागत पद्धति क्या है? सीमांत लागत पद्धति तथा अवशोषण लागत पद्धति में अंतर कीजिए।

### इकाई – 4

प्रश्न 4. बजटरी नियंत्रण क्या है ? इसके उद्देश्य, सिद्धांत एवं इसकी सीमाएं बताइये।

अथवा

एक कारखाना वर्तमान में 50% क्षमता पर काम करता है तथा 10,000 इकाईयां उत्पादित करता है।  
कंपनी के लाभों का अनुमान लगाइये जबकि यह 60% तथा 80% क्षमता तक काम करे।

60% कार्य करने पर कच्ची सामग्री की लागत 2 बढ़ जाती है एवं बिक्री – मूल्य 2 से कम हो जाता है।

80% पर कच्ची सामग्री की लागत 5% बढ़ जाती है तथा बिक्री मूल्य 5% कम हो जाता है।

50% कार्य करने पर उत्पादन की लागत रू 180 प्रति इकाई है तथा रू. 200 प्रति इकाई बेचा जाता है।

इकाई लागत रू. 180 निम्न प्रकार से है –

कच्ची सामग्री                      रू. 100  
श्रम                                      रू. 30  
कारखाना उपरिव्यय                  रू. 30 (40% स्थायी)  
प्रशासन उपरिव्यय                  रू. 20 (50% स्थायी)

000000